

दैनिक जागरण 24/03/2024

**सीएसए के पांच विद्यार्थियों
को 7.7 लाख का पैकेज**

कानपुर : सीएसए के पांच छात्र-
छात्राओं का बहुराष्ट्रीय खाद
निर्माता कंपनी यारा फर्टिलाइजर
ने 7.7 लाख के सालाना पैकेज पर
चयन किया है। विश्वविद्यालय के
सेवायोजन निदेशक डा. विजय कुमार
यादव ने बताया कि 19 और 20 मार्च
को विश्वविद्यालय में सेवायोजन
शिविर लगाया गया था। जासं

लोकजन संदेश

कानपुर से प्रकाशित

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्राओं द्वारा किया गया योगासन



कानपुर नगर , चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई एक एवं इकाई दो द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किये जा रहे विशेष सात दिवसीय कैंप के अंतिम दिवस पर विश्वविद्यालय के शाकभाजी अनुभाग कल्याणपुर पर विशेष योग सत्र का आयोजन

किया गया। इस अवसर पर इकाई दो की कार्यक्रम अधिकारी डॉ श्वेता द्वारा प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को योगाभ्यास कराए गए। योगाभ्यास को कराते समय डॉ श्वेता द्वारा कहा गया कि योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ बनाता है क्योंकि यह हमें रोग से लड़ने की शक्ति देता है। योग रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है तथा श्वसन संबंधी विकारों को दूर करता है। राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई एक के कार्यक्रम

अधिकारी डॉ राजीव द्वारा बताया गया कि योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र विकास करना है। समग्र विकास से तात्पर्य यहां शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक विकास से है। योग जीवन जीने की एक कला है। डॉ राजीव ने यह भी कहा कि योग शरीर एवं मन को एक साथ लाता है तथा यह तीन मुख्य तत्वों जैसे गति, श्वास एवं ध्यान पर केंद्रित है। नियमित योगाभ्यास सहनशक्ति, शक्ति, शांति एवं कल्याण को बढ़ावा दे सकता है। योगाभ्यास कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई एक एवं इकाई दो के 100 छात्र-छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।

आज का कानपुर

कानपुर से प्रकाशित लखनऊ, उज्जैन, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हमीरपुर, मीरहा, बादा, फतेहपुर, प्रयागराज, इटावा, कन्नौज, गाजीपुर, कानपुर देहात, सुल्तानपुर, अमेठी, बहराइच में प्रसारित

राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्राओं द्वारा किया गया योगासन

आज का कानपुर

कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई एक एवं इकाई दो द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किये जा रहे विशेष सात दिवसीय कैंप के अंतिम दिवस पर विश्वविद्यालय के शाकभाजी अनुभाग कल्याणपुर पर विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इकाई दो की कार्यक्रम अधिकारी डॉ श्वेता द्वारा प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को योगाभ्यास कराए गए। योगाभ्यास को कराते समय डॉ श्वेता द्वारा कहा गया कि योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ बनाता है क्योंकि यह हमें रोग से लड़ने की शक्ति देता है। योग रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है तथा श्वसन संबंधी विकारों को दूर करता है। राष्ट्रीय सेवा योजना की



इकाई एक के कार्यक्रम अधिकारी डॉ राजीव द्वारा बताया गया कि योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र विकास करना है। समग्र विकास से तात्पर्य यहां शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक विकास से है। योग जीवन जीने की एक कला है। डॉ राजीव ने यह भी कहा कि योग शरीर एवं

मन को एक साथ लाता है तथा यह तीन मुख्य तत्वों जैसे गति, श्वास एवं ध्यान पर केंद्रित है। नियमित योगाभ्यास सहनशक्ति, शक्ति, शांति एवं कल्याण को बढ़ावा दे सकता है। योगाभ्यास कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई एक एवं इकाई दो के 100 छात्र-छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।



अमर भारती

संस्करण

एक उम्मीद

द्वारा: 03 रु.

RNI No. UPHIN/2011/46455

www.amarbharti.com

रविवार, 24 मार्च 2024 शक

राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राओं ने किया योगासन

कानपुर (अमर भारती)। सीएसए की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई एक एवं इकाई दो द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किये जा रहे विशेष सात दिवसीय कैंप के अंतिम दिवस पर विश्वविद्यालय के शाकभाजी अनुभाग कल्याणपुर पर विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इकाई दो की कार्यक्रम अधिकारी डॉ श्वेता द्वारा प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को योगाभ्यास कराए गए। योगाभ्यास को कराते समय डॉ श्वेता द्वारा कहा गया कि योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ बनाता है क्योंकि यह हमें रोग से लड़ने की शक्ति देता है। योग रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है तथा श्वसन संबंधी विकारों को दूर करता है। राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई एक के कार्यक्रम अधिकारी डॉ राजीव द्वारा बताया गया कि योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र विकास करना है। समग्र विकास से तात्पर्य यहां शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक विकास से है। योग जीवन जीने की एक कला है।

उपदेश लाइफ

कानपुर से प्रकाशित एवं कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, गोरख, जौनपुर, फिरोजाबाद, जालौन उड़ी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा में प्रसारित

कानपुर, रविवार 24 मार्च 2024

पृष्ठ : 8

ने की अगुवाई में संपन्न हुआ। इस ट्रस्ट की चेयरपर्सन डॉक्टर ।कया।

राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्राओं द्वारा किया गया योगासन



कानपुर नगर , चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई एक एवं इकाई दो द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किये जा रहे विशेष सात दिवसीय कैंप के अंतिम दिवस पर विश्वविद्यालय के शाकभाजी अनुभाग कल्याणपुर पर विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इकाई दो की कार्यक्रम अधिकारी डॉ श्वेता द्वारा प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को योगाभ्यास कराए गए। योगाभ्यास को करते समय डॉ श्वेता द्वारा कहा गया कि योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ बनाता है क्योंकि यह हमें रोग से लड़ने की शक्ति देता है। योग रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है तथा श्वसन संबंधी विकारों को दूर करता है। राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई एक के कार्यक्रम अधिकारी डॉ राजीव द्वारा बताया

गया कि योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र विकास करना है। समग्र विकास से तात्पर्य यहां शारीरिक, मानसिक, नैतिक,

आध्यात्मिक व सामाजिक विकास से है। योग जीवन जीने की एक

कला है। डॉ राजीव ने यह भी कहा कि योग शरीर एवं मन को एक साथ लाता है तथा यह तीन मुख्य तत्वों जैसे गति, श्वास एवं ध्यान पर केंद्रित है। नियमित योगाभ्यास सहनशक्ति, शक्ति, शांति एवं कल्याण को बढ़ावा दे सकता है। योगाभ्यास कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई एक एवं इकाई दो के 100 छात्र-छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।

भोले के लिए जूनियर भ



अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशी देवेन्द्र सिंह भोले के लिए कल्याणपुर मंडल अध्यक्ष जनक सिंह के नेतृत्व में जूनियर भोले विकास सिंह ने कल्याणपुर में व्यापारियों एवं क्षेत्रीय निवासियों से संपर्क कर भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील की। सांसद, प्रत्याशी भोले को आने वाले लोकसभा चुनाव में विजई बनाने के लिए सांसद पुत्र जूनियर भोले विकास सिंह ने बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं, मंडल पदाधिकारियों, क्षेत्रीय नागरिकों के

साथ कल्याणपुर पनकी रोड, पुगनी शिवली रोड, बंबा रोड पर पैदल चलकर व्यापारियों एवं क्षेत्रीय निवासियों से सम्पर्क कर प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। लोगों ने जूनियर भोले का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए भाजपा के पक्ष में ही मतदान करने की बात कही। कल्याणपुर पनकी रोड पर व्यापारी नेता दीप अवस्थी के नेतृत्व में व्यापारी पनकी रोड गायत्री मंदिर पर एकत्रित होकर ढोल मजीरे के साथ जूनियर भोले का स्वागत करते हुए जो राम को लाए हैं हम उनको लायेंगे के गीत के साथ झूमते नाचते हुए प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी के नाम व

भोलैनाथ टाइम्स

Email: bholenathtimes@gmail.com

लखनऊ से प्रकाशित

भक्तों पर हमें

योग कैम्प

विशेष सात दिवसीय कैम्प के अंतिम दिवस पर विशेष योग सत्र का आयोजन

राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्राओं द्वारा किया गया योगासन

कानपुर नगर(बीएनटी संवाददाता)। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई एक एवं इकाई दो द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किये जा रहे विशेष सात दिवसीय कैम्प के अंतिम दिवस पर विश्वविद्यालय के शाकभाजी अनुभाग कल्याणपुर पर विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इकाई दो की कार्यक्रम अधिकारी डॉ श्वेता द्वारा प्रतिभागी छात्र, छात्राओं को योगाभ्यास कराए गए। योगाभ्यास को कराते समय डॉ श्वेता द्वारा कहा गया कि योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ बनाता है क्योंकि यह हमें रोग से लड़ने की शक्ति देता है। योग रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है तथा ध्वसन संबंधी विकारों को दूर करता है। राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई एक के कार्यक्रम अधिकारी डॉ राजीव द्वारा बताया गया कि योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र विकास करना है। समग्र विकास से तात्पर्य यहां शारीरिक, मानसिक, नैतिक,



आध्यात्मिक व सामाजिक विकास से है। योग जीवन जीने की एक कला है। डॉ राजीव ने यह भी कहा कि योग शरीर एवं मन को एक साथ लाता है तथा यह तीन मुख्य तत्वों जैसे गति, श्वास एवं ध्यान पर केंद्रित है। नियमित योगाभ्यास सहनशक्ति, शक्ति, शांति एवं कल्याण को बढ़ावा दे सकता है। योगाभ्यास कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई एक एवं इकाई दो के 100 छात्र, छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।

महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु महिला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

कानपुर नगर(बीएनटी संवाददाता)। शनिवार को दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज कानपुर द्वारा महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु आंतरिक शिकायत समिति एवं समाजशास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वाधान में महिला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कानपुर कोतवाली की एसीपी अर्चना सिंह कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के यशस्वी प्राचार्य प्रो. अरुण कुमार दीक्षित जी द्वारा की गई। आंतरिक शिकायत समिति की समन्वयक प्रो. प्रमिला त्रिपाठी द्वारा इस समिति की रूपरेखा, कार्य प्रणाली तथा कार्य क्षेत्र की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर प्रो. रजत कुमार, शिक्षक संघ अध्यक्ष प्रो. पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी, समाजशास्त्र के विभाग अध्यक्ष प्रो. राम जी उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर सीमा आर्य द्वारा किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन

डॉक्टर प्रतिभा त्रिपाठी के द्वारा किया गया।

27 मार्च को आयोजित किया जायेगा कानपुर दिवस समारोह

कानपुर नगर(बीएनटी संवाददाता)। मर्चेन्ट्स चैम्बर ऑफ उ०प्र० तथा कानपुर पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन प्रेसवार्ता में कानपुर पंचायत के सचिव धर्म प्रकाश गुप्त ने बताया कि 24 मार्च हर वर्ष की तरह इस बार 24 मार्च को होने वाला कानपुर दिवस समारोह होली पर्व के कारण अब बुधवार 27 मार्च को सर पदमपत सिंघानिया सभागार मर्चेन्ट्स चैम्बर ऑफ उ०प्र० में आयोजित किया जायेगा। धर्म प्रकाश ने बताया कि कानपुर जिले के रूप में 24 मार्च 1803 में अधिकारिक रूप से इसे स्थापित किया गया था। जिसकी कार्यवाही

कलकत्ता के फोर्ट विलियम के कागजातों में दर्ज है। इस आयोजन में पंचायत द्वारा कानपुर के इतिहास एवं विशेषताओं को दर्शाने हेतु निर्मित वृत्तचित्र कानपुर पग पग निशा तैरे के प्रदर्शन के साथ सात विशिष्ट नागरिकों का भी सम्मान किया जायेगा। साथ ही चित्रकला प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को सम्मानित किया जायेगा। इन्द्र मोहन रोहतगी ने बताया कि कानपुर की लुप्त होती विरासतें, परम्परायें तथा कलाओं के प्रति जनमानस में जागरूकता होती है और कानपुरवासियों को अपने वैभव का स्मरण होता है। होली के अपसर पर आयोजन में कानपुर की चटपटी चाट एवं ठंडाई भी होगी। वार्ता में महेन्द्र मोदी, डॉ० इन्द्र मोहन रोहतगी, विमल झाझरिया, सुदीप उपस्थित रहे।

होली मिलन समारोह का आयोजन

कानपुर नगर(बीएनटी संवाददाता)। शनिवार को होली से पूर्व चतुर्भुज व्यापार मंडल द्वारा नयागंज में व्यापारियों द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया।



राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र-छात्राओं ने किया योगासन

कानपुर (नगर छाया समाचार)। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई एक एवं इकाई दो द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किये जा रहे विशेष सात दिवसीय कैंप के अंतिम दिवस पर विश्वविद्यालय के शाकभाजी अनुभाग कल्याणपुर पर विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इकाई दो की कार्यक्रम अधिकारी डॉ श्वेता द्वारा प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को योगाभ्यास कराए गए। योगाभ्यास को कराते समय डॉ श्वेता द्वारा कहा गया कि योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ बनाता है क्योंकि यह हमें रोग से लड़ने की शक्ति देता है। योग रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है तथा श्वसन संबंधी विकारों को दूर करता है। राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई एक के कार्यक्रम अधिकारी डॉ राजीव द्वारा बताया गया कि योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र विकास करना है। समग्र विकास से तात्पर्य यहां शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक विकास से है। योग जीवन जीने की एक कला है। डॉ राजीव ने यह भी कहा कि योग शरीर एवं मन



को एक साथ लाता है तथा यह तीन मुख्य तत्वों जैसे गति, श्वास एवं ध्यान पर केंद्रित है। नियमित योगाभ्यास सहनशक्ति, शक्ति, शांति एवं कल्याण

को बढ़ावा दे सकता है। योगाभ्यास कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई एक एवं इकाई दो के 100 छात्र-छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।

Sign in to edit and save changes to this file.

@janexpressnews janexpresslive janexpresslive www.janexpresslive.com/epaper

लखनऊ और देहरादून से प्रकाशित राष्ट्रीय हिंदी दैनिक

जन एक्सप्रेस

लखनऊ | वर्ष: 15 | अंक: 162 | मूल्य: ₹ 3.00/- | पेज : 12+3 (वेब संस्करण) | रविवार | 24 मार्च, 2024

शाकभाजी अनुभाग कल्याणपुर पर योग सत्र का किया गया आयोजन



जन एक्सप्रेस | कानपुर नगर

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई एक एवं इकाई दो द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किये जा रहे सात दिवसीय कैंप के अंतिम दिन शनिवार को

विश्वविद्यालय के शाकभाजी अनुभाग कल्याणपुर पर योग सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इकाई दो की कार्यक्रम अधिकारी डॉ. श्वेता द्वारा प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को योगाभ्यास कराए गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ बनाता है क्योंकि यह हमें रोगो

से लड़ने की शक्ति देने के साथ रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने व श्वसन संबंधी विकारों को दूर करने में मदद करता है। राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई एक के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. राजीव ने बताया कि योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र विकास करना है। समग्र विकास से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक विकास से है। योग जीवन जीने की एक कला है। उन्होंने कहा कि योग शरीर एवं मन को एक साथ लाता है। यह तीन मुख्य तत्वों जैसे गति, श्वास एवं ध्यान पर केंद्रित है। नियमित योगाभ्यास सहनशक्ति, शक्ति, शांति एवं कल्याण को बढ़ावा दे सकता है। योगाभ्यास कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई एक एवं इकाई दो के 100 छात्र-छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।

सत्य का असर समाचार पत्र

Sunday 24th March 2024

jksingh.hardoi@gmail.com

website: satyakaasar.com

राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्राओं द्वारा किया गया योगासन



वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र सिंह पटेल

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई एक एवं इकाई दो द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किये जा रहे विशेष सात दिवसीय कैंप के अंतिम दिवस पर विश्वविद्यालय के शाकभाजी अनुभाग कल्याणपुर पर विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इकाई दो की कार्यक्रम अधिकारी डॉ श्वेता द्वारा प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को योगाभ्यास कराए गए। योगाभ्यास को कराते समय डॉ श्वेता द्वारा कहा गया कि योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ बनाता है क्योंकि यह हमें रोग से लड़ने की शक्ति देता है। योग रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है तथा श्वसन संबंधी विकारों को दूर करता है। राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई एक के कार्यक्रम अधिकारी डॉ

राजीव द्वारा बताया गया कि योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र विकास करना है। समग्र विकास से तात्पर्य यहां शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक विकास से है। योग जीवन जीने की एक कला है। डॉ राजीव ने यह भी कहा कि योग शरीर एवं मन को एक साथ लाता है तथा यह तीन मुख्य तत्वों जैसे गति, श्वास एवं ध्यान पर केंद्रित है। नियमित योगाभ्यास सहनशक्ति, शक्ति, शांति एवं कल्याण को बढ़ावा दे सकता है। योगाभ्यास कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई एक एवं इकाई दो के 100 छात्र-छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।